



एक नवरत्न कंपनी



# हरित ऊर्जा के माध्यम से देश को ऊर्जावान करते हुए....

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की विवरणी का सार

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | विवरण                                                                                             | एकल           |            |            |             |            | समेकित        |            |            |             |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                   | समाप्त तिमाही |            |            | समाप्त वर्ष |            | समाप्त तिमाही |            |            | समाप्त वर्ष |            |
|          |                                                                                                   | 31.03.2025    | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2025  | 31.03.2024 | 31.03.2025    | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2025  | 31.03.2024 |
|          |                                                                                                   | अंकेक्षित     | अनंकेक्षित | अंकेक्षित  | अंकेक्षित   | अंकेक्षित  | अंकेक्षित     | अनंकेक्षित | अंकेक्षित  | अंकेक्षित   | अंकेक्षित  |
| 1        | प्रचालनों से कुल आय                                                                               | 2,058.54      | 1,970.34   | 1,649.09   | 8,994.26    | 8,396.49   | 2,346.97      | 2,286.76   | 1,886.94   | 10,379.86   | 9,630.96   |
| 2        | कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पूर्व)                                                              | 1,076.77      | 338.41     | 1,117.15   | 4,000.05    | 4,273.34   | 1,166.78      | 434.36     | 1,110.73   | 4,767.19    | 5,014.95   |
| 3        | कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पश्चात)                                                             | 1,076.77      | 338.41     | 1,117.15   | 4,000.05    | 4,273.34   | 1,166.78      | 434.36     | 1,110.73   | 4,767.19    | 5,014.95   |
| 4        | निम्न को आरोप्य अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ :                                                    |               |            |            |             |            |               |            |            |             |            |
|          | - मूल कंपनी के स्वामी                                                                             | 893.92        | 273.60     | 693.35     | 3,083.98    | 3,721.80   | 853.64        | 231.23     | 543.90     | 3,006.67    | 3,595.95   |
|          | - अनियंत्रित ब्याज                                                                                | -             | -          | -          | -           | -          | 65.99         | 98.90      | 61.12      | 406.06      | 403.59     |
| 5        | निम्न को आरोप्य अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ एवं अन्य व्यापक आय सहित (कर पश्चात)]:                |               |            |            |             |            |               |            |            |             |            |
|          | - मूल कंपनी के स्वामी                                                                             | 869.50        | 189.22     | 582.28     | 2,981.09    | 3,696.84   | 828.09        | 146.72     | 432.89     | 2,902.22    | 3,570.42   |
|          | - अनियंत्रित ब्याज                                                                                | -             | -          | -          | -           | -          | 64.90         | 98.76      | 61.17      | 403.56      | 403.04     |
| 6        | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)                                       | 10,045.03     | 10,045.03  | 10,045.03  | 10,045.03   | 10,045.03  | 10,045.03     | 10,045.03  | 10,045.03  | 10,045.03   | 10,045.03  |
| 7        | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर अन्य इक्विटी                                                | 28,303.45     | 28,840.26  | 27,230.92  | 28,303.45   | 27,230.92  | 29,623.13     | 30,201.46  | 28,623.56  | 29,623.13   | 28,623.56  |
| 8        | निवल मूल्य                                                                                        | 38,348.48     | 38,885.29  | 37,275.95  | 38,348.48   | 37,275.95  | 39,668.16     | 40,246.49  | 38,668.59  | 39,668.16   | 38,668.59  |
| 9        | प्रदत्त ऋण पूंजी                                                                                  | 38,019.10     | 36,029.11  | 33,018.86  | 38,019.10   | 33,018.86  | 41,573.98     | 38,491.10  | 34,578.00  | 41,573.98   | 34,578.00  |
| 10       | ऋण इक्विटी अनुपात                                                                                 | 0.99          | 0.93       | 0.89       | 0.99        | 0.89       | 1.05          | 0.96       | 0.89       | 1.05        | 0.89       |
| 11       | प्रति शेयर आय (मूल और डायल्यूटेड) - (गैर-वार्षिकी) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक) |               |            |            |             |            |               |            |            |             |            |
|          | - विनियामक आस्थगित लेखा शेष में परिवर्तन को छोड़कर (₹ में)                                        | 0.86          | 0.25       | 0.53       | 2.93        | 3.47       | 0.80          | 0.20       | 0.36       | 2.72        | 3.19       |
|          | - विनियामक आस्थगित लेखा शेष में परिवर्तन को शामिल करते हुए (₹ में)                                | 0.89          | 0.27       | 0.69       | 3.07        | 3.71       | 0.85          | 0.23       | 0.54       | 2.99        | 3.58       |
| 12       | पूंजी विमोचन आरक्षित                                                                              | 2,255.71      | 2,255.71   | 2,255.71   | 2,255.71    | 2,255.71   | 2,255.71      | 2,255.71   | 2,255.71   | 2,255.71    | 2,255.71   |
| 13       | डिबेंचर (बॉण्ड) विमोचन आरक्षित                                                                    | 788.66        | 950.61     | 950.61     | 788.66      | 950.61     | 788.66        | 950.61     | 950.61     | 788.66      | 950.61     |
| 14       | ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)                                                                   | 3.45          | 1.49       | 1.63       | 2.52        | 2.74       | 3.41          | 1.57       | 1.52       | 2.85        | 2.90       |
| 15       | ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)                                                                | 104.35        | 1.67       | 2.92       | 3.93        | 5.87       | 40.49         | 1.77       | 2.67       | 4.13        | 6.16       |
| 16       | प्रतिभूति प्रीमियम खाता                                                                           | -             | -          | -          | -           | -          | -             | -          | -          | -           | -          |

## नोट :

- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट : [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं कंपनी की वेबसाइट <https://www.nhpcindia.com/welcome/page/105> पर उपलब्ध है।
- पिछली अवधियों के आंकड़े आवश्यकतानुसार पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत/पुनः उल्लिखित किए गए हैं।



31-03-2025 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम देखने के लिए QR कोड को स्कैन करें

स्थान : फरीदाबाद  
दिनांक : 20 मई, 2025

## एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी कार्यालय परिषद,

सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) भारत

ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 एवं ISO 45001: 2018 प्रमाणित कंपनी

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन-08645380

